



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 1059) पटना, बुधवार, 16 सितम्बर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

9 जुलाई 2015

सं0 1186—नालंदा जिलान्तर्गत श्री हर हर महादेव धर्मशाला, हरनौत पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0— 3218 है।

इस न्यास की व्यवस्था वर्षों से तीन सदस्यीय न्यास समिति कर रही थी। इस न्यास की विकास एवं सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु दिनांक 29/10/2013 को आम सभा की बैठक में चार (4) सदस्यों का मनोनयन का प्रस्ताव पारित किया गया। न्यास समिति के सचिव ने आम सभा के बैठक की प्रति एवं दिनांक 11/09/13 के कार्यकारिणी बैठक के प्रस्ताव की प्रति अपने पत्रांक-06, दिनांक 24/09/2014 द्वारा पर्षद कार्यालय को प्रेषित किया। तदोपरांत पर्षदीय पत्रांक-1232, दिनांक 22/12/14 द्वारा अंचल पदाधिकारी, हरनौत, नालंदा से न्यास की वस्तुस्थिति, न्यास-सम्पत्ति, आय, वर्तमान व्यवस्था के संबंध में जांच कर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया। अंचल पदाधिकारी, हरनौत ने अपने पत्रांक-278, दिनांक 14/03/15 द्वारा इस न्यास से संबंधित जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया, जिसमें आम सभा द्वारा चार (4) नये सदस्यों का नाम मनोनयन हेतु प्रस्तावित था।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में इस न्यास की सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है तथा इस न्यास समिति का पुर्नगठन किया जाता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री हर हर महादेव धर्मशाला, हरनौत, नालंदा” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए न्यास समिति पुर्नगठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री हर हर महादेव धर्मशाला न्यास योजना, हरनौत, नालंदा” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री हर हर महादेव धर्मशाला न्यास समिति, हरनौत, नालंदा” होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति पुर्नगठित की जाती है:-
- (1) श्री कृष्णानन्दन प्रसाद, ग्राम+पो0- हरनौत, गोनावां रोड, हरनौत, नालंदा — अध्यक्ष
 - (2) श्री अनिल कुमार सिंह, ग्राम+पो0- हरनौत, गोनावां रोड, हरनौत, नालंदा — सचिव
 - (3) श्री हीरालाल, ग्राम+पो0- हरनौत, बिचली बाजार, नालंदा — सदस्य
 - (4) श्री सुनील कुमार, पिता- श्री जागेश्वर सिंह, ग्राम+पो0- पोआरी, हरनौत, नालंदा — सदस्य
 - (5) श्री अरुण कुमार सिंह, पिता- स्व0 देवेन्द्र सिंह, ग्राम+पो0- लंघौरा, हरनौत, नालंदा — "
 - (6) श्री धनन्जय कुमार पिता- श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- हरनौत गोनावां रोड, नालंदा- "
 - (7) श्री रमेश सिंह पिता- स्व0 राजवंशी सिंह, ग्राम+पो0- हरनौत रांची रोड, हरनौत, नालंदा- "
12. न्यास समिति बैठक कर आपसी सहमति से कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगी एवं उसके अनुमोदन हेतु पर्षद कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित करेगी।
 13. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1059-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>